

- ऐस क्यूईस्ट **पंकज आडवाणी** ने चीन के **जू रेटी** को हराकर **एशियाई स्नूकर टूर जीता**। 33 वर्षीय ने अपने चीनी प्रतिद्वंद्वी पर 6-1 से जीत दर्ज की। पंकज ने 2003 में चीन में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां का समापन हो गया है। अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल** ने स्वच्छ संस्कृति को बनाए रखने, बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मेगा फूड पार्क और शी कोल्ड चैन श्रृंखला इकाइयों के बीच स्वच्छता के लिए पुरस्कार वितरित किए।
- पांच बार की विश्व चैंपियन **मैरी कॉम** को **इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन** (एआईबीए) महिला विश्व चैंपियनशिप के आगामी 10 वें संस्करण के **ब्रांड एंबेसडर** के रूप में नामित किया गया है। एआईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप 15-24 नवंबर से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
- मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने **श्री एस. एस. देसवाल**, आईपीएस (हरियाणा: 84) को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने आईटीबीपी के निवर्तमान महानिदेशक **श्री आर. के. पचनंदा** से प्रभार ग्रहण किया। श्री पचनंदा 31 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हो गए गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि श्री देसवाल अगले आदेश तक सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
- **गिरीश राधाकृष्णन** ने चेन्नई-मुख्यालय वाली पीएसयू गैर-जीवन बीमा कंपनी, **यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस** के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रभारी पदभार संभाला है।
- **श्री अनुपम खेर** ने पुणे स्थित **फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान** के अध्यक्ष पद से **इस्तीफा** दे दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्री खेर का इस्तीफा प्राप्त होने की पुष्टि की है। श्री खेर ने अपने इस्तीफे में बताया है कि वे अंतरराष्ट्रीय शूटिंग व्यस्तताओं के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय शूटिंग कार्यक्रमों की वजह से वे 2018-19 के दौरान करीब 9 महीने देश में नहीं रहेंगे उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण एफटीआईआई के अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वाह कर पाने में असमर्थता व्यक्त की है।
- प्रधान मंत्री **नरेंद्र मोदी** द्वारा शुरू किए गए **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन** (आईएसए) को बढ़ावा देने के लिए, जापान ने अनुमोदन देते हुए समूह में शामिल होने की घोषणा की आईएसए फ्रेमवर्क को मंजूरी देने वाला जापान 48वां व हस्ताक्षर करने वाला 71वां देश होगा। प्रधान मंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष **शिन्जो आबे** के बीच द्विपक्षीय सम्मेलन के अंत में निर्णय की घोषणा की गई।
- पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) **श्री के.जे. अल्फोंस** वरिष्ठ अधिकारियों के शीर्षमंडल के साथ **बहरीन के मनामा** में **संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन** (यूएनडब्ल्यूटीओ) की कार्यकारी परिषद के **109वें** सत्र में भाग ले रहे हैं। कार्यकारी परिषद का तीन दिवसीय सत्र 30 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ। कार्यकारी परिषद वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के विकास से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा करेगी। कार्यकारी परिषद के बैठक के पहले दिन श्री के.जे. अल्फोंस ने यूएनडब्ल्यूटीओ की कार्यक्रम और बजट समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
- **विश्व बैंक** ने नई दिल्ली में अपनी **नवीनतम डूंग बिजनेस रिपोर्ट** (डीबीआर, 2019) जारी की। भारत ने कारोबार में सुगमता सूचकांक में 23 पायदानों की और ऊंची छलांग लगाई है। विश्व बैंक द्वारा आकलन किये गये 190 देशों वाली डूंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत वर्ष 2017 के 100वें पायदान से और ऊपर चढ़कर अब **77वें पायदान** पर पहुंच गया है। भारत द्वारा कारोबार में सुगमता सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

Science –



- प्रसव के दौरान कौन सा पश्च पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है - ऑक्सीटोसीन
- A posterior pituitary hormone released during parturition is - Oxytocin
- इन्सुलिन हॉर्मोन है - पेप्टाइड
- Insulin hormone is a - Peptide
- कौन सी धातु इन्सुलिन में उपस्थिति है - जिंक
- Which metal is present in insulin - Zinc
- उष्णकटिबंधीय स्तर – I में शामिल है - हरे पौधे
- Trophic level – I includes - Green plants
- सेब के लाल रंग का कारण है - एंथोसाइनिन
- Redness in apple is due to - Anthocyanin
- टमाटर में लाल रंग के कारण होता है - कैरोटीनॉयड
- Red colour in tomato is due to - Carotenoid
- डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं - डिऑक्सीराइबोज
- The sugar present in DNA is - Deoxyribose
- लाइकेन जटिल प्राणी है, जो से बने होती है - कवक / शैवाल
- Lichen are the complex creature, made from - Fungus / Algae
- उड़ान में समक्ष स्तनपाइ है - चमगादड़
- Mammal capable in flying is - Bat

